

VIDYA BHAVAN, BALIKA VIDYAPEETH

SHAKTI UTTAN ASHRAM, LAKHISARAI, PIN:-811311

SUBJECT:- CCA

CLASS:- XTH 'D'

DATE:15/01/XXI

CLASS TEACHER:- MR. NEEL NIRANJAN

CCA (INDIAN ARMY DAY- 12TH JANUARY)

सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश **थल सेना** की वीरता अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्तां को बयान करता है। जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली में **सेना मुख्यालय** के साथ-साथ देश के कोने कोने में शक्ति प्रदर्शन के अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। **सेना दिवस**, भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को **लेफ्टिनेंट जनरल** (बाद में **फील्ड मार्शल**) **के. एम. करियप्पा** के **भारतीय थल सेना** के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को **ब्रिटिश राज** के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर से यह पदभार ग्रहण किया था। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी **सेना** मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है जिन्होंने कभी ना कभी अपने **देश** और लोगों की सलामती के लिये अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया।

15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो देश भर में व्याप्त दंगे-फसादों तथा शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल-पुथल का माहौल था।^[3] इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा।^[3] इसके पश्चात एक विशेष सेना कमांड का गठन किया गया, ताकि विभाजन के दौरान शांति-व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।^[3] परन्तु भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करिअप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे।^[4] उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे।^[5] उनसे पहले यह पद कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर के पास था। उसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है।^[6] के एम करिअप्पा पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। उन्होंने साल 1947 में भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था।

सेना दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष **दिल्ली छावनी** के करिअप्पा परेड ग्राउंड में परेड निकाली जाती है, जिसकी सलामी थल सेनाध्यक्ष लेते हैं। 2018 में 70वां सेना दिवस मनाया गया, जिसमें परेड की सलामी जनरल **बिपिन रावत** ने ली।